

दिव्यांगजन के लिये आवेदन—पत्र का प्रारूप

प्रति,

नवीनतम पासपोर्ट
साईज का फोटो
चर्चा कर
स्व—प्रमाणित करें।

पद के लिये आवेदन पत्र
(आवेदित पद का नाम)

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं उपनाम (हिन्दी में)	
2.	आवेदक/आवेदिका का नाम एवं उपनाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
3.	लिंग— पुरुष/महिला/अन्य	
4.	पिता/पति का नाम	
5.	माता का नाम	
6.	वर्तमान निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित	
7.	स्थाई निवास का पूर्ण पता पिन कोड सहित	
8.	मोबाईल नम्बर	
9.	व्हाट्सएप नम्बर	
10.	ईमेल आई.डी.	
11.	जन्म तिथि (अंकों में) (डिजिटल जन्म प्रमाण—पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
12.	जन्म तिथि (शब्दों में)	
13.	दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आयु	वर्ष.....माह.....दिन.....
14.	क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है ? हॉ या नहीं। (यदि हॉ तो मूल निवास प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
15.	जन्म स्थान (ग्राम, शहर, जिला, राज्य का नाम लिखें)	
16.	क्या आवेदक मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछङ्गा वर्ग का सदस्य है ? यदि हॉ तो जाति व उपजाति का उल्लेख करें। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल वैद्य स्थायी जाति प्रमाण—पत्र की स्व—प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)	
17.	जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण—पत्र की स्व—प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।	

18.	दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत तथा विज्ञापन में उल्लेख अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी																																																																
19.	वैवाहिक स्थिति— (अ) क्या आप विवाहित हैं— हॉ / नहीं (ब) यदि हॉ तो विवाह की तिथि (स) विवाह के समय आयु (द) जीवित बच्चों की संख्या (ई) अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक (फ) 26 जनवरी, 2001 के बाद जन्मे बच्चों की संख्या																																																																
20.	शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था / कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता, शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण—पत्र सहित संलग्न करें। यदि आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था / निगम / मण्डल में कार्यरत है तो उसका नाम एवं पता : (अ) वर्तमान में धारित पदनाम (ब) वर्तमान पद का वेतनमान जिस पर कार्यरत है। (छठवां एवं सातवां जो भी लागू हो)																																																																
21.	शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी (अंकसूचियों एवं प्रमाण—पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>उत्तीर्ण परीक्षा का नाम</th> <th>उत्तीर्ण होने का वर्ष</th> <th>बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम</th> <th>विषय</th> <th>पूर्णांक / प्राप्तांक</th> <th>प्राप्तांकों का प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक / प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	1.							2.							3.							4.							5.							6.							7.							8.						
क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक / प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत																																																											
1.																																																																	
2.																																																																	
3.																																																																	
4.																																																																	
5.																																																																	
6.																																																																	
7.																																																																	
8.																																																																	
22.	कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण है ? हॉ या नहीं, यदि हॉ तो प्रमाण—पत्र संलग्न करें।																																																																
23.	सी.पी.सी.टी. स्कॉर कार्ड में कम्प्यूटर दक्षता और हिन्दी टायपिंग उत्तीर्ण है ? हॉ या नहीं, यदि हॉ तो प्रमाण—पत्र संलग्न करें।																																																																

स्थान
दिनांक

आवेदक / आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

:: स्व घोषणा ::

मैं पुत्र/पुत्री उम्र.....
वर्ष, निवासी जिला मध्यप्रदेश एतद
द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान व
विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छिपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे
द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा
सकती है, आवेदित पद पर मेरा चयन एवं चयन पश्चात नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ वापस लिये जा सकते हैं।

स्थान
दिनांक

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम
